

## Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 23-24/0411 04<sup>th</sup> November, 2023

**BSE Limited** 

Department of Corporate Services
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(SCRIP CODE - 535602)

**National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051

(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

<u>Subject: - Submission of Copy of Newspaper Advertisement</u>

<u>Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations,</u>

2015

Dear Sir/ Madam.

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated Friday, 03<sup>rd</sup> November, 2023 published in Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sharda Motor Industries Limited

Iti Goyal
Assistant Company Secretary
& Compliance Officer

Encl. as above

Regd. Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax: 91-11-26811676
E-mail: smil@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

OIN NO 174000DI 4000DI 000000

CIN NO-L74899DL1986PLC023202

**FINANCIAL EXPRESS** 

SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED CIN: U74110DL1962PTC003780 Registered Address: 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110001 Tel No.: 011-49281700 | Email : compliance@signatureglobal.ir **PUBLIC NOTICE** 

Notice for Surrender of Certificate of Registration as a Depository

This is to bring to the notice of general public that Signatureglobal Securities Private Limited is registered with SEBI as a Depository Participant Securities and Exchange Board of India (Depositories) and Participants) Regulations, 2018 Bearing SEBI Registration No.: IN-DP-319-2017 and has ceased to function as a Depository Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) pursuant to the closure '. The notices were already dispatched to all our demat account holders informing about the closure of depository business. Further, we are in the process of surrendering the certificate of registration granted to us by SEBI. Henceforth, Signatureglobal Securities Private Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL

Participant pursuant to Closure of Depository Business

In case any Client of Signatureglobal Securities Private Limited has any grievance or dispute; he/she/it may report the same in writing to "Signatureglobal Securities Private Limited" For and on behalf of

Signatureglobal Securities Private Limited

Compliance Officer Date: 02.11.2023

#### CORRIGENDUM M/S H.L. TECH FABRICS LIMITED (IN LIQUIDATION)

With reference to the sale notice published on 01st November 2023 in this newspaper, I, Liquidator hereby informs that the last date for submission of EMD is extended to 27-11 2023. The other terms and conditions are the same and for complete details refer process

CMA Vijender Sharma Liquidator-M/s, H.L. Tech Fabrics Ltd. (under Liquidation) P Registration No. - IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022

Address-VRSA Insolvency Professionals LLP 11 (3rd floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Registered E-mail Id: - vijender@vsa.net.in Process E-mail id: - hltechfabrics.cirp@gmail.com Ph: 011-41578410

AFA valid upto 02.10.2024

**PARTICULARS** 

Net Profit for the period before Tax (before/ after

3) Net Profit for the period after Tax (before/ after

(face value of Rs.10 each, Basic & Diluted)

**PARTICULARS** 

) Net Profit for the period before Tax (before/ after

Net Profit for the period after Tax (before/ after

(face value of Rs.10 each, Basic & Diluted)

Total Income/Revenue from Operations (Net of Discounts)

4) Total Comprehensive Income for the period (Comprising

Profit for the period after Tax and other Comprehensive

exceptional items)

exceptional items)

Income (OCI) after Tax)

Earning Per Share in Rs.

exceptional items)

exceptional items)

Income (OCI) after Tax)

Earning Per Share in Rs.

Dated: 01" November, 2023

Place: Phagwara

Paid up Equity Share Capital

5) Paid up Equity Share Capital

Total Income/Revenue from Operations (Net of Discounts)

Total Comprehensive Income for the period (Comprising)

Profit for the period after Tax and other Comprehensive

Date:03-11-2023

#### 'IMPORTANT'

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE **sukhjit** <u>Starch & Chemicals Limited</u>

Regd. Office: Sarai Road, Phagwara-144401 CIN: L15321PB1944PLC001925

E-mail: sukhjit@sukhjitgroup.com Website: www.sukhjitgroup.com Ph. 01824-468800

Quarter Ended

30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022

Unaudited

324.28

17.14

13.04

13.54

15.62

8.35

Quarter Ended

Unaudited

325.29

14.02

10.67

11.17

15.62

6.83

Unaudited

343.68

24.52

18.52

19.12

15.62

11.86

30.09.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |

347.45

21.46

16.06

16.66

15.62

10.28

Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter/ Six Months Ended 30<sup>th</sup> September, 2023 (in ₹Crores

Unaudited

322.85

18.06

13.66

13.56

15.62

8.75

Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter/ Six Months Ended 30<sup>th</sup> September, 2023 (in ₹Crores

Unaudited

324.10

15.54

11.39

11.29

15.62

7.29

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ half yearly unaudited Financial Results prepared under Ind AS and file

with the Stock exchange on 01st November, 2023, under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement

Regulations, 2015. The full format of the quarterly / half yearly financial results is available on the Stock exchange website of BSE a

Corrigendum: Yearly figures for FY 23 escaped in the Press Release dated 02.11.2023, through an oversight.

www.bseindia.com & of NSE at www.nseindia.com and also on Company's website at www.sukhjitgroup.com.

#### A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office:-14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph: 9887049006, 9929139002 • Email: akspintex@gmail.com • Website: www.akspintex.com CIN: L17117RJ1994PLC008916

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015) it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 11th November, 2023 at 02:00 P.M. at the registered office of the company at 14 K.M. Stone, Chittorgarh Road, Biliya Kalan, Bhilwara-311001 to, interalia, consider and approve the Unaudited Financial Statements for the guarter and 6 Month ended 30th September, 2023 along with other routine business.

Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 1st October, 2023 to 15th November, 2023 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result. For A.K. SPINTEX LIMITED

Place: Bhilwara Ashish Kumar Bagrecha Date: 02nd Nov. 2023 Company Secretary & Compliance Officer



SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED (CIN: L74899DL1986PLC023202) Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020 Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676, Email: investorrelations@shardamotor.com Website: www.shardamotor.com

Pursuant to SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Notice is hereby given that next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, 09th November, 2023, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2023.

The said notice is also available on the Company's website www.shardamotor.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Sharda Motor Industries Limited Date: 2nd November, 2023 Nitin Vishnoi Place: New Delhi Company Secretary

DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED CIN:-L26100TN2006PLC061254

Regd. Office: DALMIAPURAM, P.O.KALLAKUDI-621651, DIST. TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU

Phone:-911123457100, Website: www.dalmiaocl.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Dalmia

(Rs. in crore except per share data)

5. No.	PARTICULARS	1.0	Quarter Ended		Half Year	Year Ended	
		Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Sep 30, 2022	Sep 30, 2023	Sep 30, 2022	Mar 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
onsolida	ted Financial Results			estacioneste de la contracta de	- Communication in the Communi		
1	Income from operations	29.43	60.51	87.73	89.94	181.15	358.67
2	Profit/(Loss) before tax	(4.76)	(2.85)	10.30	(7.61)	23.79	(10.41)
3	Net Profit/(Loss) after tax	(5.24)	(22.28)	8.25	(27.52)	20.22	1,335.00
4	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income)	234.42	22.73	33.85	257.15	67.35	1,341.47
5	Paid-up equity share capital (Face Value Per Share Rs. 10/-)	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20
6	Other Equity excluding Revaluation Reserve	- 4			-		2,231.81
iscontinu	ned Operations (Refer Note No.5)	23.0					
7	Profit before tax from Discontinued Operation	0.29	(0.49)	11.05	(0.20)	21.96	(52.25)
8	Net Profit / (Loss) for the period/ year from Discontinued Operation	0.25	(0.38)	6.30	(0.13)	34.46	(28.41)
9	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(not Annualised)					9 T	
	(a) Basic and Diluted- Continuing operations	(1.19)	(5.04)	1.87	(6.23)	4.55	302.04
	(b) Basic and Diluted- Discontinued operations	0.07	(0.09)	1.38	(0.03)	7.46	(6.87)
	(c) Basic and Diluted- Continuing and Discontinued operations	(1.12)	(5.13)	3.25	(6.26)	12.02	295.17
andalon	e Financial Results			and the same of th	-		
- 1	Income from operations	18.02	29.97	23.05	47.99	41.84	102.69
2	Profit/(Loss) before tax	(5.29)	(1.60)	3.11	(6.89)	6.75	(36.14)
3	Net Profit/(Loss) after tax	(6.18)	(3.06)	2.33	(9.24)	5.34	1318.74

The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly & half year financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly & half year financial results are available on the stock exchange's websites, www.msei.in and www.cse-india.com and on the Company's website www.dalmiaocl.com.

- The above financial results of Dalmia Bharat Refractories Limited ("the Company") were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors on November 01, 2023. The statutory auditors of the Company have carried out limited review for the quarter and half year ended 30th September 2023.
- "On July 27, 2023, Dalmia Bharat Refractories Limited ("DBRL") as a Resolution Applicant has filed a resolution plan for acquisition of Birla Tyres Limited under the Corporate Insolvency Resolution Process in terms of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 jointly with Himadri Specialty Chemical Limited ("HSCL") as a Strategic Partner. Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench ("NCLT") pronounced the final order on October 19,2023 sanctioning the resolution plan. The resolution plan shall be implemented in three stages as below: A. Financial Restructuring wherein DBRL will acquire 99.99% shareholding and HSCL shall acquire 0.001% shareholding of Birla Tyres Limited. Appointed date is May 05,2022; Scheme of Demerger wherein the Tyres Undertaking of Birla Tyres Limited shall demerge from Birla Tyres and transferred to DBRL. Appointed date is May 06,2022 C. Transfer of non-operational unit of Tyres Undertaking to Dalmia Mining and Services Private Limited, subsidiary of DBRL. Appointed date is May 06, 2022. Necessary steps are being taken to implement the proposed plan in accordance with steps set out in resolution plan. Pending receipt of certified copy of orders from NCLT and filing of copy of orders with registrar of
- Till January 5, 2023, the Company was primarily in the business of refractory manufacturing and selling. Subsequent to transfer of its Refractory business to RHI the Company is only engaged in trading activity of refractories. Hence, the business of trading of refractories constitutes single business segment. The Company's operations are predominantly confined in India. Hence, there is only one identified reportable segment as per Ind AS 108 - Operating Segment.
- In view of transfer of its Refractory Business in India to RHI Magnesita India Ltd ("RHI") which was concluded on January 4, 2023, the Indian Refractory Business have been considered as discontinued operations in accordance with Ind AS 105 (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations). Continuing Operations in DBRL represents Trading activity of Magnesia
- Additional information pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 on key standalone financial information of the Company are also given herewith.

companies, no accounting effects are considered in terms of above said resolution plan in the accompanying financial results."

On behalf of the Board For Dalmia Bharat Refractories Limited Chandra Narain Maheshwari Whole Time Director & CEO DIN: 00125680

**PUBLIC NOTICE** Release of Parcel of Land As per the Government order CS/7540/ReV/G/2023 dt. 12-10-2023, Parcel of Land in Khasra No. 420, 421 and 623 in Village - Khudna Khurd, Dist - Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh is released under the provisions of The Land Acquisition Act 1984.

### PUBLIC NOTICE

loan was advanced by Essel Finance Business Loan Limited to MR. ASHOK YADAV, MR. PREETAM SINGH YADAV (since deceased) AND MRS. DHARAMVATI(since deceased against mortgage of immovable property being "all That Piece And Parcel Of Freehold Residential Empty Plot Bearing Khasra No. 67 & 68, Area Measuring 200 Sq. Yds i.e., 167.22 Sq Mtrs, Situated At Village- Sarfabad, Pargana & Tehsil- Dadri, District- Gautam Budh Nagar, U.P-201301 owned by MRS. DHARAMVATI (since deceased). Thereafter Essel Finance Business Loan Limitedhas assigned the said loan account to Kotak Mahindra Bank Limited along with the security interest in respect of the said propert vide Deed of Assignment dated 31.05.2019 Post the death of MR. PREETAM SINGH YADAY and MRS. DHARAMVATI, his son MR.ASHOR YADAV has settled the loan account and MR ASHOK YADAV along with his siblings MR. RINKU YADAV AND MRS. SUSHMA YADAV have approached and represented that they are the only legal heirs of the deceased MR PREETAM SINGH YADAV and MRS. DHARAMVATIand accordingly have requested for handing over the title documents of the above said property to MR. ASHOK YADAV. In case anybody has any claim or ownership interest, are requested to get in touch with the undersigned with proof of the same within thirty days from receipt of this public notice failing

In case of any representation/grievance objection, Please Contact: Mr. Prashant Gautam Kotak Mahindra Bank Ltd., E-mail: prashant.gautam@kotak.com Mobile: 9643615436.

which we would be handing over the documents

# **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN**

#### Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services) 2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK. 248171

**PUBLICATION NOTICE** IN O.A. NO. 75 OF 2023

SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB- RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME Dy. No. 976/2023 Date: 25.10.2023

Canara Bank (E-Syndicate Bank). V/S M/s Deshraj Singh Contractor, & Ors.

 M/s Deshraj Singh Contractor, Mohalla Chau KI Basti, Near Shiv Mandir, Line par, Moradabad, District Moradabad 244001 through its proprietor Shri Deshraj Singh.

Shri Deshraj Singh, S/o Shri Bohari Lal, R/o Mohalla Chau Ki Basti, Near Shiv Mandir, Line par, Moradabad, District Moradabad 244001 Whereas the Above Named Applicant Bank Has Instituted OA No. 75 of

2023 Against You For Recovery of Debts of Rs. 39,30,403.69/- In Which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the Registrar on 20.10.2023. Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is

not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 06.12.2023. Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice. Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 25th day of October, 2023. By Order of Tribunal Ragistrar Debts Recovery Tribunal, Dehradun By Order of Tribunal

Debts Recovery Tribunal, Dehradun

### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services) 2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK. 248171

#### **PUBLICATION NOTICE** IN O.A. NO. 74 OF 2023 SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE

RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME Date: 19.10.2023 Canara Bank (E-Syndicate Bank). V/S M/s Zeenat Handicrafts &

M/s Zeenat Handicrafts, Hijaji Wali Gali, Near Lal School, Mughalpura

1", Moradabad, District Moradabad 244001 through its proprietor Smt. Smt. Zeenat Akthar W/o Shri Mukarram Khan, R/o Hijaji Wall Gall, Near Lal School, Mughalpura 1st, Moradabad, District Moradabad

Whereas the Above Named Applicant Bank Has Instituted OA No. 74 of 2023 Against You For Recovery of Debts of Rs. 40.41.474.98/- In Which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the

Registrar on 18.10.2023. Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 04.12.2023. Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and

affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice. Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 19th day of October 2023. By Order of Tribunal Ragistrar Debts Recovery Tribunal, Dehradun By Order of Tribunal



Half Year ended

30.09.2023 30.09.2022

Unaudited

705.16

51.67

39.27

15.62

24.88

709.73

47.02

35.22

35.62

15.62

22.55

Unaudited

647.13

35.20

26.70

27.10

15.62

17.09

Unaudited Unaudited Unaudited

649.39

29.56

22.06

22.46

15.62

14.12

Half Year ended

31.03.202

Audited

1436.97

92.74

70.14

72.51

15.62

44.90

Year Ende

31.03.202

Audited

1449.62

86.23

63.37

65.74

15.62

40.56

Place: New Delhi

Dated: November 01, 2023

(K.K. Sardana)

**Managing Director** 

### CHEMPLAST SANMAR LIMITED

Regd.Office: 9, Cathedral Road, Chennai - 600 086 Tel: 91 44 2812 8500

Website: www.chemplastsanmar.com E-mail id: grd@sanmargroup.com CIN: L24230TN1985PLC011637

### Extract of consolidated and standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September 2023

Consolidated

(Rs. in Crores except for EPS data) Standalone

SI. No.	Particulars	Consolidated				Standaione			
		Quarter ended		Half Year ended		Quarter ended		Half Year ended	
		30-09-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022
1	Revenue from operations	987.75	1194.37	1984.16	2605.67	350.62	569.27	700.47	1139.30
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	9.25	41.80	(83.91)	174.95	(10.44)	48.05	(54.01)	146.42
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	9.25	41.80	(83.91)	94.45	(10.44)	48.05	(54.01)	96.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	26.05	38.54	(37.92)	79.13	13.73	41.90	(14.25)	80.52
5	Total comprehensive income for the period	26.26	38.48	(37.49)	79.09	13.87	41.84	(13.95)	80.47
6	Equity Share Capital	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06
7	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (Not annualised) (for continuing and discontinued operations) (Rs.) -								
	1. Basic:	1.65	2.44	(2.40)	5.00	0.87	2.65	(0.90)	5.09
	2. Diluted:	1.65	2.44	(2.40)	5.00	0.87	2.65	(0.90)	5.09

### Notes:

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly unaudited financial results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly and half yearly unaudited financial results are available on the stock exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on our website www.chemplastsanmar.com.
- b) Exceptional and/or Extraordinary items are adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. During April to June 2022, the Zero COVID policy in China and the resultant COVID related shutdown there, had resulted in a sharp contraction of demand for PVC resin in that country. On account of this, there was a spike in exports of PVC resin from China, leading to a steep fall in finished products prices in India as well as feedstock prices. In line with generally accepted accounting principles, the Group had written down the carrying value of stocks of major intermediates and finished products, to levels corresponding to the net realisable value of finished products, leading to an exceptional charge during April to June 2022 in consolidated and standalone financials of
- c) Other Equity as per consolidated and standalone financials (excluding revaluation reserve) as at 31st March 2023 was Rs. 223.57 Crores and Rs. 2751.12 Crores respectively.

For and on behalf of the Board **Chemplast Sanmar Limited** 

Ramkumar Shankar Managing Director DIN: 00018391

Vijay Sankar Chairman DIN: 00007875

Debts Recovery Tribunal, Dehradun

Date: 2nd November, 2023 Ragistrar

Place: Chennai

New Delhi

Rs. 80.50 Crores and Rs. 49.80 Crores respectively.

financialexp.epa

### एप्पल को भेजा गया नोटिस, सीईआरटी-इन ने शुरू की जांच : आईटी सचिव

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। सचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने एप्पल की ओर से उन्हें भेजे गए चेतावनी के संदेश का जो मुद्दा उठाया था उसकी जांच सरकार की साइबर सरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कंपनी को नोटिस भी भेजा

यह कदम इसलिए भी मायने रखता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सप्ताह की शुरुआत में एपल के उपकरणों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि एप्पल यह स्पष्ट करे कि क्या उसके उत्पाद सुरक्षित है और 150 से अधिक देशों में लोगों को चेतावनी के क्यों भेजे गए,खासतौर पर तब जब कि कंपनी लगातार दावा करती है कि उसके उत्पाद निजता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। चंद्रशेखर ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में

कहा कि सरकार चेतावनी संबंधी संदेशों की जांच कराएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार पर विपक्ष के आरोपों को स्पष्ट तौर पर खारिज किया और कहा बाध्यकारी आलोचकै ध्यान भटकाने की राजनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आईटी सचिव ने बृहस्पतिवार को इस बात की पष्टि की कि एप्पल को नोटिस भेजा गया है। कृष्णन ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, सीईआरटी-इन ने अपनी जांच शुरू कर दी है...वे (एप्पल) इस जांच में सहयोग करेंगे।

भारतीय कंप्युटर आपात प्रतिक्रिया टीम या सीईआरटी-इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह पूछे जाने पर कि क्या एप्पल को नोटिस भेजा गया है? उन्होंने कहा, हां।

एप्पल ने इस संबंध में पीटीआई-भाषा की ओर से भेजे गए ईमेल का कोई जबाव नहीं दिया। विपक्ष के कई नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें उनके

आईफोन में सरकार प्रायोजित सेंधमारी के प्रयास के बारे में एप्पल से चेतावनी संदेश मिला है तथा इस कथित हैकिंग के प्रयास के लिए सरकार जिम्मेदार है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और कहा कि सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे. पार्टी नेता केसी वेणगोपाल, शशि थरूर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत एवं टी एस सिंहदेव, शिवसेना (युबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसी तरह का संदेश मिला है। एप्पल ने 31अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि वह विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को भेजे गए चेतावनी संदेश को किसी विशिष्ट सरकार-प्रायोजित हमलावरों से नहीं जोड़ती और वह इस बारे में जानकारी नहीं दे सकती है कि ऐसी चेतावनियों का कारण क्या है।

### कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी के आवास पर तलाशी ली

हैदराबाद, (भाषा)। आयकर विभाग (आईटी) के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को हैदराबाद में कांग्रेस के नेता के. लक्ष्मा रेड्डी के आवास पर तलाशी ली। सुत्रों ने यह जानकारी दी। रेड्डी, 30 नवंबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महेश्वरम सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग (ईसी) के अधिकारी लक्ष्मा रेड्डी के आवास पर संयुक्त रूप से तलाशी ले रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के आधिकारिक प्रवक्ता गौरी सतीश ने राज्य की सत्तारूढ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर कांग्रेस के उम्मीदवार के घर आईटी और ईसी की छापेमारी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस और भाजपा के बीच सांठगांठ है और वे इस तरह के कृत्यों से कांग्रेस उम्मीदवारों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, और केंद्रीय बलों को तैनात किया 'बीआरएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। और पुलिसकर्मी मणिपुर राइफल्स दोनों साजिश रच रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे नियंत्रित शिविर के पास के इलाकों में गश्त किया जाए। लोगों ने तेलंगाना में 30 नवंबर के कर रहे हैं। राज्य पुलिस ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का बृहस्पतिवार को कहा, फैसला किया है और उन्हें (बीआरएस और भाजपा) जनता की राय हजम नहीं हो रही है और इसलिए इन राइफल्स बटालियन में हथियार और चीजों का सहारा ले रहे हैं।

## आयकर विभाग ने तेलंगाना में हमले की घटना के बाद इंफाल में तनावपूर्ण शांति

इंफाल, (भाषा)। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बृहस्पतिवार को शांति रही, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। एक दिन पहले यहां मणिपुर राइफल्स के शिविर के शस्त्रागार को लूटने की कोशिश के दौरान सुरक्षा बलों ने दो हजार से अधिक लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग की थी।

शहर में कई बाजार बंद रहे, लेकिन शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और मणिपुर उच्च न्यायालय सामान्य रूप से खले रहे. जबिक सुबह 10 बजे से कर्फ्यू में ढील के बाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी देखी गई। प्रशासन ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त राज्य हथियारबंद भीड द्वारा मणिपुर गई थी, जिसे संयुक्त सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। भीड ने बुधवार को इंफाल वेस्ट जिले में राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब मणिपुर राइफल्स शिविर को निशाना बनाया था।

इसके बाद सख्ती दिखाते हुए इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिले में अधिकारियों ने दैनिक कर्फ्यू में सबह पांच बजे से रात 10 बजे तक की छुट को वापस ले लिया था। हालांकि, इंफाल ईस्ट के जिलाधिकारी ने कर्फ्यू प्रतिबंध में बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक ढील दी। इंफाल वेस्ट में भी सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक इस तरह का प्रतिबंध हटा लिया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि लोगों के आवासों के बाहर गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंध में बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक छूट दी गई है लेकिन यह छूट किसी तरह की भीड़ जुटाने या बड़े पैमाने पर आंदोलन या विरोध प्रदर्शन या गोला-बारूद लूट की कोशिश की रैली करने के लिए नहीं होगी।

सुबह मोरेह शहर में आदिवासी उग्रवादियों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या किये जाने के बाद तनाव फैल गया था। एक अन्य घटना में, मंगलवार दोपहर तेंगनौपाल जिले के सिनम में उग्रवादियों ने राज्य बल के एक काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें तीन पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। इस बीच, कुकी छात्र संगठन (केएसओ) ने तेंगनौपाल जिले के मोरेह शहर में अतिरिक्त पुलिस कमांडो की तैनाती के विरोध में एक नवंबर की आधी रात से राज्य में 48 घंटे के बंद का आह्वान किया है। तीन मई को राज्य में जातीय हिंसा भडकने के बाद से 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जब मेइती समदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाडी जिलों में आदिवासी एकजटता मार्च आयोजित किया गया था। **Proclamation Requiring** 

Attendence of Defendant (Order 5 Rule 20 of the

**Code of Civil Procedure**)

In The Court of

Ms. Rajat Goyal, Sr. Civil

Judge Rent Controller

Room No. 207, District

Court Dwarka, Dwarka

V/s.

1) Sh. Harpreet Singh S/o

Sh. Avtar Singh Proprieto

Food Fan, Plot No. G-1

Phase 3, Badli Industrial

Area, North Delhi-110042.

2) Sh. Umesh Kumar, S/o

Pawan Kumar. I-915

Jahangirpuri, H-Block, Nortl

intentionally evading service

of summons it is hereby

notified that if you shall not

defend the case on 13th

December 2023 at 10.00

AM the day fixed for the

final disposal. it will be heard

Give under my hand and the

seal of the Court, this or

Judge Rent Controller

**District Court Dwarka** 

In The Court of

Sh. Siddhant Sihag, ACJ

CCJ/ARC, S.W. District,

Room No. 201, Dwark

Petition No. Succ. Court

Tarun Kumar Puri And

Anr

Vs

The State & Anr

1. Tarun Kumar Puri S/o

Courts, New Delhi.

169/2023

Dwarka, New Delhi

Sd/

Sr. Civil

and determined ex-parte.

vou

West Delhi-110033.

Whereas

19.10.2023.

Seal

.....Plaintiff

....Defendant

New Delhi.

CS/711/2023

Nainital Bank

Harpreet Singh

### पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाने के वादे पर राहुल का तंज इस वर्ग का अपमान: किशन रेड्डी

पिछडी जाति के व्यक्ति को

मुख्यमंत्री बनाने की भाजपा की

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस

घोषणा को पचा नहीं पा रहे हैं।

📵 पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

रत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य परियो

य निम्नतिकित कार्य हेतु ई—निकि

ानंत्रित करते हैं। æo संo−1, ई− निविद

ffexti-CPM-GS-IZN-2023-31, WF

का नाम – अमृत भारत स्टेशन योजना र

न्तर्गत लालकुओं स्टेशन पर 12.0 मीटर चौर

क्लोबी निर्माण के सम्बन्ध में आरपीएक वैरह

रीर सीनियर सेक्शन इंजीनियर∕ वैरेज एम

धिकार क्षेत्र में जन्म कार्य। अनुमानि

विवेदा मल्य- २०.०६.४४१.५६. ब्रागाना रामि

क्त) : 1,50,100,00, निविदा प्रयत्र का मृत्य

6 (छ:) साह। • बिटिंग प्रात्म्म करने की रिधि

6.11.2023 • सपरोक्त ई-निविदा सबमिस

15.00 बजे तक । • उपरोक्त ई-शिविदा खुल

की तिमि- दिनांक 22.11.2023 15.30 चने

शर्ते वेबलाइट https://irops.gov.in पर देखा जा सकता है। ● निविदा सूचना में यदि हिन्दी

प्र अंग्रेजी के आतंखों में कोई मिन्नता होती है

चढ़ियों की छठों न पायदान पर कदानि यात्रा न करें।

**Proclamation Requiring** 

Attendence of Defendant

(Order 5 Rule 20 of the

**Code of Civil Procedure**)

In The Court of

Ms. Rajat Goyal, Sr. Civil

Judge Rent Controller

Room No. 207, District

Court Dwarka, Dwarka,

Nainital Bank .....Plaintiff

....Defendant

V/s.

1) Sh. Amit Kumar S/o Sh

Gopal Ram R/o D-210, Street

No 15, Dasrath Puri, South

Also at: - Manager Security

Interglobe Aviation Ltd.

Ground Floor, Thapar House,

2) Smt. Seema W/o Sh. Amit

Kumar, Seema Garments

Store, D-210, Dashrath Puri

Palam, South West Delhi,

Gali No. 8 Near DDA Flats,

intentionally evading service

of summons it is hereby

notified that if you shall not

defend the case on 13th

December 2023 at 10.00

**AM** the day fixed for the

final disposal. it will be heard

Give under my hand and the

seal of the Court, this on

Judge Rent Controller,

District Court Dwarka,

Dwarka, New Delhi.

Sr. Civil

and determined ex-parte.

you

124, Janpath Central

Wing, New Delhi.

New Delhi-110045.

Whereas

19.10.2023.

West, New Delhi-110045.

Amit Kumar & Anr

वप मुख्य इंजीनियर/गतिसक्ति

तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होनें।

लिकि/क्ल्यू - 393

New Delhi.

CS/292/2023

अन्तिम तिथि - विनांक 22.11.202

निल, कार्य पूर्ण करने की अवधि

रेगन आफिजों का क्यानान्तरण एवं एप मह

जीनियर / गतिशक्ति / इञ्जतनगर

हैदराबाद, (भाषा)। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेडडी ने कहा है कि पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वादे पर राहल गांधी का तंज अहंकारपूर्ण और इस वर्ग के लोगों का अपमान है।

उन्होंने कहा कि पिछडी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के नारे का मजाक उडाना सिर्फ पार्टी की आलोचना ही नहीं है बल्कि यह पिछडे वर्ग से संबंध रखने

सार्वजनिक सूचना स्ताय जान क सूचना संस्थापन को यह सूचिया किया जात है कि राजनिक दल 'सादा पंजाब सांद्रा पंजाब पार्टी के बाग से पीलट्टीकुठ होना प्रत्यानित है। पार्टी कार्योक्त पान- हेहरीबात राजनित है। पार्टी कार्योक्त पान- हेहरीबात राजनित करा, कार्योक्त किया नुस्तासपुर, पंजाब-14556 में निका है। इस पंज में जीक प्रतिमित्रिक क्षितिका पुरस्तासपुर, पंजाब-14556 में निका है। इस पंज में जीक प्रतिमित्रिक क्षितिका पहला की स्वाय १७ के के जीन

में निका है। इस बंज में जीक प्रतिमितिका क्रियियम, १९६१ की धारा १९६ के के क्रीयों राजनीतिक दल के कम में रिजन्दीकरण के जिल् भारत निर्धाल आमीन, गृह दिल्ली को आमेदन मराहत किया है, मारी के चलामिकारियों की सम्भाव अपका १ मुखरेद सिंह पुत्र बलकियद सिंह निर्धाली—१३ मेड १९८ आए-ठकरण समू उपलीक—गुरुदासपुर, किला—गुरुदासपुर महायिका में गीयल जिल गुरुक तरीधाल दिल निर्धाली—१० १७ १७-12/1442, गुरुवाला क्लारी, यार्च का ६३, जलगील— अमृतसर-२, किला—सम्बन्धनर एंजास जिला-अस्तासर एजाब

जिला-जन्तवर, पंजाब क्षेत्राच्या : मुग्तित कौर पत्नी मुख्यदेन विट निवासी- 163. उनकर पंपू, डेडडैमाल, वारोध, मुख्यास्पर, पंजाब पीर किसी जो "बाला पंजाब खंडा। पंजाब पाटी" के जान से पिकट्रीकरण में कोई जापित हो तो वे अपनी आपरित इसके कारणी सहित (राजनीतिक वाहे भारत विज्ञाबन आयोग, विज्ञाबन स्वयः, क्षाहित दों, वह विज्ञानी-11664 को उन्हामा ल्लोका रोज, नई दिल्ली–110001 को इस सूचन डे इकाशन के 30 दिनों के मीतर मेजे।

In The Court of Deepak Vats, Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge South-East, Room No. 203, Saket Court, New Delhi. SS-164/2023

Bhagwan Devi W/o Sh. Vidya Sagar R/o H. No. 412, 3rd Floor, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110024. .....Petitioner

Versus

1. State Through SDM P.S. Amar Colony, New Delhi-110024.

2. Central Road Research Institute Through its Director Delhi Mathura Road, P.O. CRRI, New Delhi-110025.

3. Sh. Vidya Sagar S/o Shri Purshottam Dass R/o H. No. 412, 3rd Floor, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110024.

Also at: D2-404, Bruna Apartment, Saviour Park Society, Loni Road, Mohan Nagar, Ghaziabad, UP-

201007. ....Respondents Whereas, on application U/s 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by

Ms. Bhagwan Devi successor of Late Indu Rani for grant of Succession Certificate in respect of debts /securities of deceased.

And whereas the said applicant shall come for hearing on 20.11.2023 at 10.00 A.M.

Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.

Given under my hand and seal on 25.10.2023. Seal Sd/-

**Administrative Civil** Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge, South-East, Saket Court, New Delhi.

वाले लोगों की आकांक्षाओं का इसी तरह से तेलंगाना में पिछडे अपमान है जो अपनी आजीविका वर्ग का अपमान करती रही तो चलाने के लिए कठिन मेहनत करते वह आगामी चुनाव में सिर्फ चार भाजपा की तेलंगाना इकाई के सीट पर सिमट कर रह जाएगी। अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि भाजपा पिछडी जाति के उम्मीदवार को पिछडी जाति के लोगों की तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने के और भाजपा के वादे का उपहास उडाते सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं को परा हए राहल गांधी ने बधवार को कहा करने की दिशा में काम करती है था कि भाजपा ऐसा कैसे कर जो तेलंगाना की कुल आबादी का सकती है जबकि उसे बेहद कम 55 प्रतिशत हैं। रेड्डी ने सोशल वोट मिलने वाले हैं। गांधी ने तेलंगाना में चुनावी रैली के दौरान मीडिया मंच एक्स (पूर्व में टिवटर) पर कहा, राहुल गांधी पूछा था, आपको यहां सिर्फ दो श्री नरेन्द्र मोदी जी को स्वीकार प्रतिशत वोट मिलेंगे फिर आप कैसे नहीं पा रहे हैं जो कि पिछडी जाति मुख्यमंत्री बनाएंगे? से आते हैं और प्रधानमंत्री पद पर हैं। राहुल, सत्ता में आने पर

Proclamation under selection 19 of the provincial insolvency Act, 1920

In The Court of Tanya Bamniyal Judge Small Cause/Addl. Civil Judge. Guardian Judge, Court No 3. Saket Courts, New Delhi CS SCJ 02/2023 Amar Singh Bhalla

....Plaintiff Versus

....Defendant

Bala

Smt Bala W/o Late Sh Jitender @ Jittu, R/o- House No. 231, K-II, Gali No. 6. Harijan Colony, Sangam Vihar, New Delhi-110080 You are directed to appear in person along with duly authorized counsel 20.11.2023

Given under may hand and seal of the Court this on 22.09.2023.

Seal Sd/-Judge Small Cause

Addl. Senior Civil Judge, Guardian Judge, Saket Courts, New Delhi

In The Court of Sh. Siddhant Sihag, ACJ CCJ/ARC, S.W. District. Room No. 201, Dwarka Courts, New Delhi. Petition No. Succ. Court

185/2023 Chunna Devi Vs

The State & Anr 1. Chunna Devi W/o Maya Ram R/o H. No. 36, Jaat Mohalla Near Shyam Mandir, Village Dhoolsiras. South West Delhi, Delhi-

110077. ....Petitione For Succession Certificate Under Indian Successsion

Act, 1925. Γo,

All concerned,

Whereas in the above noted petition the applicant/ petitioner has applied for Succession certificate to the Hon'ble Court Under section 372 of the Indian Succession Act. 1925 in respect of Debts & securities etc. Standing in the name of Late Pawan Kumar Godara, deceased. Whereas the 12.12.2023 at 10:00 A.M. in the forenoon has been fixed for hearing or the application notice is

concerned. Given under my hand and the seal of the court on this 25.10.2023. Seal

hereby given to all

Sd/ ACJ/CCJ/ARC S.W. District, Dwarka Courts, New Delhi.

#### मराठा आरक्षण : महाराष्ट्र के विधायकों ने मंबर्ड में पुदर्शन किया

मंबई. (भाषा)। महाराष्ट में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के समर्थन में बृहस्पतिवार को कई विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना के दोनों गुटों और कांग्रेस के विधायक सुबह सचिवालय के गेट पर जमा हुए और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग में नारे लगाए। यह दूसरा दिन है जब विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने आरक्षण की मांग के समर्थन में मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन

Public Notice

Delhi-110041 has debarred his son Jitende Delhi High Courts, New Delhi-110033.

राज्य का दर्जा सुनिश्चित किया। कांग्रेस पार्टी सदैव देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा-आरएसएस विविधता के खिलाफ हैं। और वे अपने मित्रों के भले के लिए आदिवासियों की संपत्ति. कीमती जमीन और जंगल छीनना चाहते हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि एमएनएफ और

सार्वजनिक सूचना को सुचित किया जाता है कि विकलों अमर चन्द पुत्र सोहन लाल एवं श्रीम ातल पत्नी अमर चन्द दोनों निवासीग –1/215–216, राजा राम मार्केट, दुकान '-48, मदनगीर, नई दिल्ली ने अपने पुत्र वे को इसके दर्व्यवहार व गलत आचरण के कार पने सभी रिश्ते–नाते विच्छेद कर लिए है औ पनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदख oर दिया है। यदि कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किलों र ,त्र से भविष्य में किसी प्रकार का कोई लेन—दे अथवा कोई भी काननी कार्यवाही होती है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसव लेए मेरे मुविकल व उनका परिवार किसी तर जिम्मेदार नहीं होगा। जगत सिंह बासत विवक्ता, चैम्बर नं. 103, लॉयर्स ब्लॉक, साकेर

**Proclamation Requiring** Attendence of Defendant (Order 5, Rule 20 of the **Code of Civil Procedure)** In The Court of

ोर्ट्स कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।

Sh. Divyang Thakur, ADJ-03, (South-West), Court No. 602, Sixth Floor, District Courts Complex, Dwarka Court, New Delhi. **Summons For Settlement** 

of Issues (0.5, R.1, 5.)CS/DJ/ADJ/879/2019 Sanjay Kumar Girdhar ....Plaintif

....Defendant Meera

Smt. Meera W/o Sh. Nepa Singh R/o RZ-56, Nangli Jalib Village, Tilak Nagar D.K. Mohan Garden, New Delhi-110053.

Fresh Address: R/o 56B Nangli Jalib Village, Tilak Nagar, D.K. Mohan Garden New Delhi-110053.

Whereas plaintiff has instituted a suit against you and you are hereby summoned to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material question relating to the suit or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on he 20.11.2023 at 10:00 O'clock in the forenoon, to answer the claim: and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counterclaim, your shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement within 30 days of service.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in vour absence.

Give under my hand and the seal of the court, this 20.10.2023 Sd/

eal

ADJ-03, (South-West). **District Courts Complex,** Dwarka Court, New Delhi.

एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा. मिजोरम के लोग शांति. समृद्धि और प्रगति के पात्र है। हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। मिजोरम राज्य के लिए हमारी गारंटी कल्याण समावेशी प्रगति और आर्थिक सुरक्षा की शुरूआत करेगी।

सार्वजनिक सूचना रे मुवक्किलगण श्री नजीर अहमद पुत्र शुबरार्त वासी जी—12 / 233, गली नं. जी—12, संग हार, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली–110062 अपने पुत्र शकील अहमद व पुत्रवधु अरसीदा दोनो को गलत आचरण व झगड़ालू प्रवृत्ति एवं दुर्व्यवहार कारण अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति विखल कर संबंध विच्छेद कर दिया है। इन दोनं रारा किये किसी कार्य लेन देन व व्यवहार के लिय रे मुवक्किलगण या इनके परिजन जिम्मेदार नहीं होंगे। चौधरी एस.पी. सिंह, (अधिवक्ता), चैम्ब ांख्या 230, साकेत कोर्ट्स परिसर, साकेत कोर्ट्स

Public Notice Viplay Azad S/o S.N. Azad Presently

esiding H. No. 12, Block No. 207, Sec-Pushp Vihar, Near Mother Dairy Delhi-110017 and Permanently residing Near Yog Sansthan, Shanti Niketan Sarvodya Nagar, Begusarai, Bihar-851101 employed in CISF as Deputy commandant, do hereby declare that have changed my name from Viplay Azad to Viplav Azad Mishra for all future purposes. That Viplay Azad and Viplav Azad and Viplav Mishra are one and the same person i.e. myself.

of Issues (O. 5, R.1, 5.)

....Plaintiff

Late Sh. Jugal Kishore Puri Vs R/o G-83/AB, 3<sup>rd</sup> Floor Kalkaji, South Delhi-110019 ....Defendant 2. Naveen Puri S/o Late Sh Jugal Kishore Puri, R/o B-Rajni D/o Hari Shingh R/o 2/31, Janakpuri B-1, Rajouri Garden, West Delhi-110058. ....Petitioner For Succession Certificate

Under Indian Successsion Act, 1925. To,

All concerned,

Whereas in the above noted petition the applicant petitioner has applied for Succession certificate to the Hon'ble Court Under section 372 of the Indian Succession Act. 1925 in respect of **Debts** & securities etc. Standing in the name of Late Ved Puri, deceased. Whereas the 20.12.2023 at

10:00 A.M. in the forenoor has been fixed for hearing or the application notice is hereby given to all concerned.

seal of the court on this 25.10.2023.

Courts, New Delhi

प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

### मिजोरम में भाजपा के अनौपचारिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं एमएनएफ और जेडपीएम : खरगे शांति ले कर आए और 1987 में जेडपीएम भाजपा के अनौपचारिक

वीर अर्जुन संवाददाता नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मिजोरम के दो प्रमुख राजनीतिक दल मिजो नेशनल फुंट (एमएनएफ) और जोराम पीपुल्स मुवमेंट (जेडपीएम) भारतीय जनता पार्टी के अनौपचारिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के तहत सात नवंबर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को मतगणना होगी। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया 1986 में एक शांति समझौते के माध्यम से राजीव गांधी मिजोरम में

ain from his life, all his movable and mmovable properties due to his bad Conduc and Disobedience towards my client. Now my client has no control over him. if anyone deals with him in future, that will be at his own risl and cost. My client will not be responsible fo that in any manner as my client has severed al his relations with his son in every manner for all purposes. Sahil Malik, Advocate, Charnber: 438, Lawyer's Chambr Block-I

**Public Notice** m Bir Yaday S/o Sh. Randhir, and his wife Smt. Ge oth R/o 97, Deepchand Pradhan Mohalla, Rajoka Ilage, South West Delhi, Delhi-110038 has disowned an sinherited their daughter Ms. Riya who has marrie gainst the family wishes and local customs and has vilifie family's name, from all their movable and immovab perties and has also severed their relationship with the venamed daughter and her husband. That my clie hall not be liable for any loss, damage and consequen uffered by anybody while dealing with them a consequences. Vipin Kr. Yadav, Advocate, Chamber N 753, Lawyers Chambers Building, Dwarka Cou Complex, District South-West, New Delhi-110075.

उत्तर मध्य माः व.रे.प्र./वा./आवरा/खा.चा./ई-नीलानी/23

ई-नीलामी निविदा ारत के चाणूपति की ओर से और उनके तिष्ट वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक उ.म.रे.-आग द्वारा आगरा मण्डल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के फोटकार्न पर 01 मल्टीपरवज स्टॉल का पाँच व

Auction NAME OF Station Total No Catalogue No. CATEGORY STATION Code of Stalls A-1 MPS Agra-MPS-23-2 आगरा खावनी AGC Auction Starting Time: Date 17.11.2023 Time 11.00 Hrs.

मोदः- हयुक्त बोलीयताओं से अनुरोध है कि वे ई-मीलामी सम्बन्धित अधिक जनकारी ए मिठिय हेतु IREPS website (www.ireps.gov.in) के e-Auction Leasing Module 1768/23 (P

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L74899DL1986PLC023202) कार्यालयः डी–188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिर्ल्ली–110020 फोन नं. +91 11 4733 4100, फैक्स नं. +91 11 2681 1676, E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.co

सूचना सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 एवं अन्य ल

प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसरण में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की गगली बोर्ड बैठक बृहस्पतिवार, 9 नवम्बर, 2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही एवं छमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com तथा

www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता. / नितिन विश्नोई दिनांकः २ नवम्बर, २०२३

स्थानः नई दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण−፤, दिल्ली

(2) मिस मोइत्रंथी गोस्वामी पत्नी श्री अनिल गोस्वामी

चरा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 3वी ए जं. 39/2021

कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव

श्रीमती उर्वशी गोस्वामी एवं अन्य ......प्रतिवादी (1) श्रीमती चर्नशी गोस्वामी एवं अन्य **पत्नी श्री अनिज गोस्वामी,** दक्षिण परिचन दिल्ली-110075

(3) श्री अनिल गोस्वामी एव गोंगा घर गोस्वामी (गारंटर) द्वारका, गई दिल्ली-110075. इस पर भी: दूसरी मंजिल, 1110, गली गं.36, हुंडीलाल रेस्टोरेंट के ऊपर, राजापुरी द्वारका, ज्ञान गगर, गई दिरही-110099. इस पर भी: एतबीआई एपीआरए प्लीजा, संबदर-10, द्वारका, गई दिल्ली-110068

इस पर भी: आईआईपीएम सतवरी नई दिल्ली-110016. (a) ग्रेटर नोएका इंबरिट्रयल केवलपमेंट क्यॉरिटी 989, चितवन एरटेट संक्टर-नामा ग्रेटर नोएक सिटी ग्रेटर नोएख जिला गीतम बुद्ध नगर (१०००)

कि चपतेका गमित अवेदक ने अपने विरुद्ध **४.३४,८६,८६६ /— (चौरीस लाख पिचासी** हजार एवं रिचाली अपने मात्र) की बसूबी के लिए एक मुकरना पायर किया है और अधिकरण संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आवको जानकारी देन संख्य नहीं है इसलिए इस विज्ञाप । माराम में सूचना देते हुए आपनो 24.11.2023 को प्रात: 10:30 बजे एस.बी. रचित्रद्वार । स्था तपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

011-23748473 वर राज्यकं करें)। वह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के समझ उपस्थित नहीं होने वर इस मठ स्थान १९० का ।नभारता ताम्य का इस आधकरण क सम्म्रा उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपरिवर्ति में गुलवाई कर निर्णय किया जाएगा। महामारी की स्थिति को देखते हुए लगी मामलों को विकियों कॉन्क्रॅसिंग के माम्यम से सिवा जा रहा है और इसके प्रयोजन डेवु:-(१) शर्मी वृद्धतेलेट्स / लिटिगेट्स को 'शिल्को वेबैक्स' वृप्तीलंशन/सॉफ्टवेगर डावनलंड करन होगा।

विस्तृत विवरणों के लिए बीजारटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in फोन न

(2) "सीटिंग बाईसी" एवं "ससवर्त" अगती सुनवाई वी विधि के लिए चीकटूार/वसुती अधिकारी—1 और वसुत्री अधिकारी—2 हात का मामलें में अंअरटी अधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर पब्लिक नोटिस हैंड के अंतर्गत सुनवाई की एक तिथि पूर्व उपलब्ध

होगा। (a) किसी भी आपतकातीन स्थिति में एडबोकंट्स/तिटिगेट्स संबंधित अधिकारी से परेन 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं। माज 07 जुलाई 2023 को नेरे हस्ताहार एवं अधिकरण की मोहर के बाख जारी किया गया। तिवादी अधिक जानवरती के हिए निम्मतिशित फीन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। भी अनित के. दर, एलडी. राजिस्ट्रार, बीआरटी-1, नई दिल्ली. कोन नं. 011-23748473 – गेलः drt1delhi-dfs@nic.in

अधिकरण के आदेशानुसार राहायक रजिस्ट्रार

Proclamation Requiring Attendence of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of

Sh. Divyang Thakur, ADJ-03, (South-West), Court No. 602, Sixth Floor, District Courts Complex, Dwarka Court, New Delhi. **Summons For Settlement** 

CS/DJ/ADJ/657/2021 Boli Kaur @ Amarjit Kaur

Reej Kaur And Ors.

1030, Gali No. 9, Shiv Colony, Karnal Haryana. Whereas plaintiff has instituted a suit against you and you are hereby summoned to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material question relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the **06.12.2023** at **10:00** O'clock in the forenoon, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counterclaim, your shall enter such documents in a list to be annexed to the written

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

service.

Give under my hand and the seal of the court, this 19.10.2023

Seal ADJ-03, (South-West), **District Courts Complex,** Dwarka Court, New Delhi.

Given under my hand and the Sd/ Seal ACJ/CCJ/ARC S.W. District, Dwarka

statement within 30 days of वैधानिक सचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन मे

प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पडताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वार किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि य समर्थन नहीं करता। समाचार पः उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी